

प्रथम 10 मिनट में अभ्यर्थी अपनी प्रश्न-पुस्तिका के क्रमांक का मिलान ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक के क्रमांक से अवश्य कर लें। यदि ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक व प्रश्न-पुस्तिका के क्रमांक भिन्न हैं तो केन्द्र अधीक्षक से निवेदन करके प्रश्न-पुस्तिका बदल लें।

**Level : 3**

**PGT : For Lecturer**

**Exam. – 2021**  
**COMPUTER SCIENCE**

**Sub. Code No. : 321**

प्रश्न-पुस्तिका क्रमांक एवं ओ०एम०आर० क्रमांक  
Question-Booklet Serial No. & O. M. R. Serial No.

अनुक्रमांक (अंकों में) :

Roll No. (In Figures)

**SET : A**

अनुक्रमांक (शब्दों में) : \_\_\_\_\_

Roll No. (In Words)

परीक्षा केन्द्र का नाम : \_\_\_\_\_

Name of Examination Centre

अभ्यर्थी का नाम : \_\_\_\_\_

Name of Candidate

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर : \_\_\_\_\_

Signature of Candidate

इस प्रश्न-पुस्तिका में पृष्ठों की संख्या No. of Pages in this Question Booklet	32	प्रश्नों की संख्या No. of Questions	150	समय Time	2½ hours
---	----	--	-----	-------------	----------

निरीक्षक के हस्ताक्षर (Signature of Invigilator) : \_\_\_\_\_

अभ्यर्थी को 10 मिनट का समय प्रश्न-पुस्तिका पर छपे निर्देशों को पढ़ने तथा उत्तर पत्रक में अपने विवरण भरने के लिए दिया जाएगा। यदि प्रश्न-पुस्तिका व उत्तर पत्रक की क्रम संख्या गलत अंकित हों तो तुरन्त केन्द्र अधीक्षक से निवेदन करके प्रश्न-पुस्तिका बदल लें। इसके पश्चात् कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इन 10 मिनटों के अतिरिक्त, प्रश्नों के उत्तर अंकित करने के लिए पूरे 2½ घंटे का समय दिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी को प्रश्न-पुस्तिका में दिए गए किसी भी प्रश्न में कोई त्रुटि होने का संदेह हो तो इसके लिए अभ्यर्थियों को परीक्षा समाप्ति के उपरान्त प्रतिवेदन देने के लिए अवसर दिया जाएगा। अतः अभ्यर्थी निर्धारित अवसर के दौरान इस सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन बोर्ड कार्यालय में दर्ज करवा सकते हैं। इस अवसर के बाद, इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

यदि किसी प्रश्न में हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम में भिन्नता है तो अंग्रेजी माध्यम का प्रश्न ठीक माना जाएगा।

If there is any variance between Hindi and English Version of any question then English Version would be considered correct.

**अभ्यर्थियों के लिए निर्देश (INSTRUCTIONS FOR THE CANDIDATES) :**

- ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक इस प्रश्न-पुस्तिका के अन्दर रखा है। जब आपको प्रश्न-पुस्तिका पढ़ने को कहा जाए, तो उत्तर पत्रक निकाल कर ध्यान से केवल काले बॉल प्वाइंट पेन से विवरण भरें। (The OMR Answer Sheet is inside this Question Booklet. When you are directed to read the Question Booklet, take out the OMR Answer Sheet and fill in the particulars carefully with black ball point pen only.)
- परीक्षा की अवधि 2½ घंटे है एवं प्रश्न-पुस्तिका में 150 प्रश्न हैं। कोई ऋणात्मक अंकन नहीं है। (The test is of two-and-half hours duration and consists of 150 questions. There is no negative marking.)
- अपने विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्रक पर निशान लगाने के लिए केवल काले बॉल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें। अभ्यर्थी प्रश्न-पुस्तिका का उपयोग करने एवं उत्तर पत्रक को भरने में सावधानी बरतें। (Use Black Ball Point Pen only for writing particulars on this page/darkening responses in the Answer Sheet. The candidate should remain careful in handling the question paper and in darkening the responses on the answer sheet.)
- प्रथम 10 मिनट में, यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न-पुस्तिका क्रमांक और उत्तर पत्रक क्रमांक एक ही हैं। अगर यह भिन्न हों तो अभ्यर्थी दूसरी प्रश्न-पुस्तिका और उत्तर पत्रक लेने के लिए पर्यवेक्षक को तुरन्त अवगत करवाएँ। (Within first 10 minutes, also ensure that your Question Booklet Serial No. and Answer Sheet Serial No. are the same. In case of discrepancy, the candidate should immediately report the matter to the Invigilator for replacement of both the Question Booklet and the Answer Sheet.)

**5. लेवल-3 (प्रवक्ता के लिए)**

- भाग-I : बाल विकास व शिक्षा शास्त्र (प्र० 1 से प्र० 30)  
भाग-II : भाषा : (प्र० 31 से प्र० 60)  
(हिन्दी : 15 प्रश्न व अंग्रेजी : 15 प्रश्न)  
भाग-III : सामान्य अध्ययन : (प्र० 61 से प्र० 90)  
(मात्रात्मक योग्यता : 10 प्रश्न, तार्किक अभिज्ञता : 10 प्रश्न,  
सामान्य ज्ञान एवं अभिज्ञान : 10 प्रश्न)  
भाग-IV : कम्प्यूटर साइंस (प्र० 91 से प्र० 150)

**5. Level-3 (For Lecturer)**

- Part-I : Child Development and Pedagogy (Q. 1 to Q. 30)  
Part-II : Language : (Q. 31 to Q. 60)  
(Hindi : 15 Q. & English : 15 Q.)  
Part-III : General Studies : (Q. 61 to Q. 90)  
(Quantitative Aptitude : 10 Q, Reasoning Ability : 10 Q, G. K. & Awareness : 10 Q)  
Part-IV : Computer Science (Q. 91 to Q. 150)

नोट : कृपया इस पुस्तिका के अन्त में दिए गए शेष निर्देशों को पढ़ें। (Please read other remaining instructions given on the last page of this booklet.)

**रफ कार्य के लिए (FOR ROUGH WORK)**

PGTPrime.com

## भाग - I (PART - I)

## बाल विकास व शिक्षाशास्त्र (CHILD DEVELOPMENT AND PEDAGOGY)

निर्देश : निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए।

Direction : Answer the following questions by selecting the most appropriate option.

1. पहला बुद्धि परीक्षण किसने बनाया ?

- (1) लेवेटर
- (2) सेंगुइन
- (3) फ्रान्सिस गाल्टन
- (4) अल्फ्रेड बिने और साइमन

2. मनोविज्ञान की शाखा जो यह अध्ययन करती है कि लोग पूरे जीवनकाल में शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से कैसे बदलते हैं, कहलाती है :

- (1) नैदानिक मनोविज्ञान
- (2) परामर्श मनोविज्ञान
- (3) विकासात्मक मनोविज्ञान
- (4) प्रयोगात्मक मनोविज्ञान

3. निम्नलिखित में से कौन-सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है ?

- (1) सुरक्षा
- (2) भूख
- (3) प्यास
- (4) विश्राम

4. यह किसने कहा कि "किशोरावस्था दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है" ?

- (1) विलियम एच० बर्टन
- (2) स्टेनले हॉल
- (3) जे० ए० हेडफील्ड
- (4) जीन पियाजे

5. निम्नलिखित में से कौन-सा गैने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानिकी सिद्धान्त का उच्चतम स्तर है ?

- (1) समस्या समाधान अधिगम
- (2) सिद्धान्त अधिगम
- (3) प्रत्यय अधिगम
- (4) बहुविभेदन अधिगम

1. Who developed the first intelligence test ?

- (1) Lavator
- (2) Sanguin
- (3) Francis Galton
- (4) Alfred Binet and Simon

2. A branch of psychology which studies how people change physically, cognitively and socially over the entire life span is known as :

- (1) Clinical psychology
- (2) Counselling psychology
- (3) Developmental psychology
- (4) Experimental psychology

3. Which of the following is *not* the innate motive ?

- (1) Safety
- (2) Hunger
- (3) Thirst
- (4) Rest

4. Who stated that "Adolescence is a period of stress, strain, storm and strife" ?

- (1) William H. Barton
- (2) Stanley Hall
- (3) J. A. Hadfield
- (4) Jean Piaget

5. Which of the following is the highest level in hierarchical theory of learning given by Gagne ?

- (1) Problem solving learning
- (2) Principle learning
- (3) Concept learning
- (4) Multiple discrimination learning

[ A ]

[ 4 ]

6. निम्नलिखित में से कौन-सी व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी तकनीक है ?
- (1) साहचर्य प्रविधि
  - (2) समाजमितीय प्रविधि
  - (3) रचना प्रविधि
  - (4) पूर्ति प्रविधि
7. निम्नलिखित में से कौन-सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण **नहीं** है ?
- (1) सांवेगिक परिपक्वता
  - (2) आत्मविश्वास
  - (3) असहनीयता
  - (4) आत्म मूल्यांकन की क्षमता
8. निम्नलिखित में से कौन-सा संप्रत्यय जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धान्त में **नहीं** दिया है ?
- (1) आत्मसातीकरण
  - (2) समविष्टीकरण
  - (3) सांकेतिक
  - (4) संतुलन
9. निम्नलिखित में से कौन-सा एक चरण चरित्र के विकास के संदर्भ में जेम्स ड्रेवर द्वारा निर्धारित चरणों में से **नहीं** है ?
- (1) अपरिष्कृत संवेगों का चरण
  - (2) मनोभाव का चरण
  - (3) आत्मसम्मान चरण
  - (4) पारंपरिक चरण के अनुरूप
10. संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक-सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन थे ?
- (1) जीन पियाजे
  - (2) जेरोम ब्रूनर
  - (3) लेव वाइगोत्स्की
  - (4) कोहलबर्ग
11. निम्नलिखित में से कौन-सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी प्रविधि **नहीं** है ?
- (1) शब्द साहचर्य परीक्षण
  - (2) वुडवर्थ का व्यक्तिगत दत्त पत्र
  - (3) वाक्य पूर्ति परीक्षण
  - (4) चित्र कथानक परीक्षण

6. Which of the following is the non projective technique of personality measurement ?
- (1) Association technique
  - (2) Sociometric technique
  - (3) Construction technique
  - (4) Completion technique
7. Which of the following is **not** the characteristic of good mental health ?
- (1) Emotional maturity
  - (2) Self confidence
  - (3) Intolerance
  - (4) Capacity of self evaluation
8. Which of the following concept is **not** introduced by Jean Piaget in his Cognitive Development theory ?
- (1) Assimilation
  - (2) Accommodation
  - (3) Symbolic
  - (4) Equilibration
9. Which one of the following stage is **not** prescribed by James Draver in the context of development of character ?
- (1) The stage of crude emotion
  - (2) The stage of sentiment
  - (3) The self regard stage
  - (4) Conforming conventional stage
10. Who was the founder of socio-culture theory of cognitive development ?
- (1) Jean Piaget
  - (2) Jerom Bruner
  - (3) Lev Vygotsky
  - (4) Kohlberg
11. Which of the following is **not** the type of projective technique of personality measurement ?
- (1) Word Association Test
  - (2) Woodworth's Personal Data Sheet
  - (3) Sentence Completion Test
  - (4) Thematic Apperception Test

12. निम्नलिखित में से कौन-सा कैटल द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के गत्यात्मक विशेषक का प्रकार **नहीं** है ?

- (1) अभिवृत्ति (2) तीव्र इच्छा  
(3) स्थायी भाव (4) रूढ़िवादी

13. किस आयु वर्ग के लिए बालक प्रसंगबोध परीक्षण (सीएटी) लागू हो सकता है ?

- (1) 2 से 5 वर्ष (2) 0 से 4 वर्ष  
(3) 16 से 18 वर्ष (4) 3 से 10 वर्ष

14. निम्नलिखित में से कौन-सी किशोरावस्था की विशेषता **नहीं** है ?

- (1) माँसपेशियों का भार कुल शरीर के भार का 20% होता है।  
(2) दिवास्वप्न देखने की प्रवृत्ति बढ़ती है।  
(3) शब्दकोश बढ़ जाता है।  
(4) मानसिक योग्यतायें अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती हैं।

15. निम्नलिखित में से कौन-सी अभिप्रेरण की **असत्य** विशेषता है ?

- (1) अभिप्रेरण में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्योन्मुखी होता है।  
(2) अभिप्रेरित व्यवहार निरंतरता करता है।  
(3) अभिप्रेरित व्यवहार की प्रकृति कठोर होती है।  
(4) अभिप्रेरणा मनुष्य में ऊर्जा परिवर्तन करती है।

16. स्टेनफोर्ड-बिने बुद्धिलब्धि स्केल के अनुसार न्यून मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धिलब्धि सीमा क्या होती है ?

- (1) 52 से 67 (2) 36 से 51  
(3) 20 से 35 (4) 20 से नीचे

12. Which of the following is **not** the type of dynamic trait of personality given by Cattell ?

- (1) Attitude (2) Urge  
(3) Sentiment (4) Conservative

13. For which age group the Children Apperception Test (CAT) is applicable ?

- (1) 2 to 5 yrs. (2) 0 to 4 yrs.  
(3) 16 to 18 yrs. (4) 3 to 10 yrs.

14. Which of the following is **not** the characteristic of Adolescence ?

- (1) Weight of muscles is 20% of total weight of body.  
(2) Tendency of day dreams increased.  
(3) Vocabulary too increases.  
(4) Mental abilities reach at their highest level.

15. Which of the following is the **false** characteristic of motivation ?

- (1) In motivation, behaviour of person is goal oriented.  
(2) Motivated behaviour does continuity.  
(3) Nature of motivated behaviour is rigid.  
(4) Motivation does energy changes in human beings.

16. According to Stanford-Binet IQ scale, what is the IQ range of low mentally retarded children ?

- (1) 52 to 67 (2) 36 to 51  
(3) 20 to 35 (4) below 20

[ A ]

[ 6 ]

17. खेल के प्रत्याशित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे ?

- (1) कार्ल ग्रूस
- (2) मैक्डूगल
- (3) हर्बर्ट स्पेन्सर
- (4) जी० स्टेनले हॉल

18. निम्नलिखित में से कौन-सा एक आदतों की विशेषताओं के संदर्भ में *गलत* कथन है ?

- (1) आदत विशिष्ट स्थिति के लिए स्वतः प्रतिक्रिया है।
- (2) आदत वंशानुक्रम से हासिल की जाती है।
- (3) आदत अच्छी तरह से सीखा प्रदर्शन है।
- (4) आदत केवल समान परिस्थितियाँ होने पर प्रदर्शित होती है।

19. निम्नलिखित में से कौन-सा सिद्धान्त अधिगम के अन्तरण सिद्धान्तों से सम्बन्धित *नहीं* है ?

- (1) मानसिक अनुशासन का सिद्धान्त
- (2) रटन्त स्मृति का सिद्धान्त
- (3) समान अवयव का सिद्धान्त
- (4) सामान्यीकरण का सिद्धान्त

20. निम्नलिखित में से कौन-सा थॉर्नडाइक के सम्बन्धवाद सिद्धान्त का अन्य नाम *नहीं* है ?

- (1) उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धान्त
- (2) अधिगम का बंध सिद्धान्त
- (3) अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धान्त
- (4) प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धान्त

21. निम्नलिखित में से कौन-सा आधुनिक मनोविज्ञान का व्यावहारिक दृष्टिकोण है ?

- (1) खुले व्यवहार पर ध्यान केन्द्रित करता है।
- (2) संज्ञानात्मक क्रियाओं पर ध्यान केन्द्रित करता है।
- (3) जैविक घटनाओं पर केन्द्रित है।
- (4) पुरुष पूर्वाग्रह की आलोचना पर केन्द्रित है।

17. Who was the propounder of Anticipatory theory of play ?

- (1) Karl Groos
- (2) McDougall
- (3) Herbert Spencer
- (4) G. Stanley Hall

18. Out of the following which one is the *wrong* statement in context of characteristics of habits ?

- (1) Habit is automatic response to specific situation.
- (2) Habit is acquired through heredity.
- (3) Habit is a well learned performance.
- (4) Habit is performed only under similar circumstances.

19. Which of the following theory is *not* related with the theories of transfer of learning ?

- (1) Theory of mental discipline
- (2) Theory of rote memory
- (3) Theory of identical elements
- (4) Theory of generalisation

20. Which of the following is *not* the other name of Thorndike's theory of Connectionism ?

- (1) Stimulus response theory
- (2) Bond theory of learning
- (3) Theory of conditioned response
- (4) Trial and Error theory

21. Which of the following is behavioural perspective of modern psychology ?

- (1) Focuses on overt behaviour.
- (2) Focuses on cognitive processes.
- (3) Focuses on the biological events.
- (4) Focuses on critique of male bias.

**22.** निम्नलिखित में से कौन-सा एक मूलप्रवृत्तियों की विशेषताओं के संदर्भ में *गलत* कथन है ?

- (1) मूलप्रवृत्ति जन्मजात होती है।
- (2) मूलप्रवृत्ति बहुत शक्तिशाली होती है।
- (3) मूलप्रवृत्ति अल्पकालिक होती है।
- (4) मूलप्रवृत्ति मनोशारीरिक स्वभाव है।

**23.** विचार, निर्णय लेने, भाषा और अन्य उच्च मानसिक प्रक्रिया से जुड़ी मानसिक गतिविधियों को कहा जाता है :

- (1) दृश्य चित्र
- (2) संज्ञान
- (3) संप्रत्यय
- (4) प्रस्ताव/साध्य

**24.** निम्नलिखित में से कौन-सा कथन *असत्य* है ?

- (1) अधिगम एक प्रक्रिया है न कि उत्पाद।
- (2) अधिगम प्रक्रिया सदैव उद्देश्यपूर्ण होती है।
- (3) अधिगम का क्षेत्र व्यापक होता है।
- (4) मूलप्रवृत्ति एवं प्रतिक्षेप क्रियाओं के द्वारा होने वाले व्यवहार के परिवर्तन भी अधिगम माने जाते हैं।

**25.** निम्नलिखित में से कौन-सा जे० पी० गिलफर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि के त्रिविमिय प्रारूप के एक घटक विषयवस्तु का प्रकार *नहीं* है ?

- |              |                |
|--------------|----------------|
| (1) आकृतिक   | (2) प्रणाली    |
| (3) सांकेतिक | (4) व्यावहारिक |

**22.** Out of the following which one is the *wrong* statement in context of characteristics of instincts ?

- (1) Instinct is innate.
- (2) Instinct is very powerful.
- (3) Instinct is ephemeral.
- (4) Instinct is psycho-physical disposition.

**23.** The mental activities associated with thought, decision making, language and other higher mental processes is called :

- (1) Visual images
- (2) Cognition
- (3) Concepts
- (4) Propositions

**24.** Which of the following is the *false* statement ?

- (1) Learning is a process not a product.
- (2) Learning process is always purposeful.
- (3) Area of learning is broader.
- (4) Behaviour changes through instincts and reflex actions are also considered as learning.

**25.** Which of the following is *not* the type of one of the component content under three dimensional model of intellect given by J. P. Guilford ?

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| (1) Figural  | (2) System      |
| (3) Symbolic | (4) Behavioural |

[ A ]

26. निम्नलिखित में से कौन-सा स्मृति के तत्वों का **सही** तार्किक क्रम है ?

- (1) अधिगम → पुनः स्मरण → धारण → पहचान
- (2) पुनः स्मरण → अधिगम → धारण → पहचान
- (3) अधिगम → पुनः स्मरण → पहचान → धारण
- (4) अधिगम → धारण → पुनः स्मरण → पहचान

27. सृजनशीलता के पोषण एवं संबर्द्धन के लिए मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रतिपादन किसने किया था ?

- (1) टॉरेन्स (2) मायर्स
- (3) ऑसबर्न (4) गॉर्डन

28. निम्नलिखित में से कौन-सा दबी हुई भावनात्मक ऊर्जा को निकालने का सही तरीका **नहीं** है ?

- (1) स्थानापन्न प्रतिक्रियाएँ
- (2) विस्थापन
- (3) प्रतिगमन
- (4) आत्म करुणा

29. निम्नलिखित में से मन का कौन-सा स्तर पूर्णतया सुखवादी और सुख प्राप्ति के अनुसिद्धान्तों द्वारा निर्देशित होता है ?

- (1) इदम् (2) अहम्
- (3) परा अहम् (4) पित्त प्रकृति

30. मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक कौन थे ?

- (1) जे० बी० वाटसन
- (2) विल्हेल्म वुण्ट
- (3) सिगमण्ड फ्रायड
- (4) जे० एम० कैटल

[ 8 ]

26. Which of the following is the **correct** logical order of elements of memory ?

- (1) Learning → Recall → Retention → Recognition
- (2) Recall → Learning → Retention → Recognition
- (3) Learning → Recall → Recognition → Retention
- (4) Learning → Retention → Recall → Recognition

27. Who propounded Brain storming method for fostering and boosting creativity ?

- (1) Torrance (2) Myres
- (3) Osborn (4) Gordon

28. Which one of the following is **not** correct way of releasing pent up emotional energy ?

- (1) Substitute responses
- (2) Displacement
- (3) Regression
- (4) Self pity

29. Which of the following structure of mind directed according to Hedonistic and pleasure principle ?

- (1) Id (2) Ego
- (3) Super Ego (4) Choleric

30. Who was the propounder of psycho-analytical method ?

- (1) J. B. Watson
- (2) Wilhelm Wundt
- (3) Sigmund Freud
- (4) J. M. Cattell



## भाग - II (PART - II)

## भाषा (हिन्दी एवं अंग्रेजी) [LANGUAGES (HINDI &amp; ENGLISH)]

## हिन्दी (HINDI)

निर्देश : निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए **सबसे उचित विकल्प चुनिए।**

**31.** कौन-सा वाक्य संबंधसूचक अव्यय का उदाहरण है ?

- (1) इतना खा लिया, इसे कैसे पचाओगे।
- (2) शीला के समान कोई आलसी नहीं है।
- (3) मैंने पर्याप्त पढ़ लिया है, अब थोड़ा आराम करूँगा।
- (4) ज़रा सोच-समझकर बोलिए।

**32.** अनुचित विलोम शब्द युग्म युक्त विकल्प पहचानिए :

- (1) विधि - निषेध
- (2) खल - सज्जन
- (3) अमर - मर्त्य
- (4) वैर - क्रोध

**33.** 'चिकना मुँह पेट खाली' लोकोक्ति का सही अर्थ है :

- (1) अपने हाथ से दान देना
- (2) देखने में सुखी भीतर से दुःखी
- (3) अत्यधिक प्यारा होना
- (4) ज़बरदस्ती गले पड़ना

**34.** निम्न में से **सही** संधि युक्त शब्द कौन-सा है ?

- (1) युधि + स्थिर = युधिष्ठिर
- (2) गुरु + उपदेश = गुरोपदेश
- (3) अभि + इप्सा = अभिप्सा
- (4) गति + अवरोध = गत्यावरोध

**35.** निम्नलिखित वर्णों के संदर्भ में कौन-सा विकल्प **असंगत** है ?

- (1) य - तालव्य, अल्पप्राण, घोष
- (2) इ - तालव्य, ह्रस्व, अवृत्तमुखी
- (3) ब - ओष्ठ्य, घोष, अल्पप्राण
- (4) ष - मूर्धन्य, अल्पप्राण, अघोष

**36.** प्रत्यय की दृष्टि से **असुमेलित** विकल्प का चयन कीजिए :

- (1) भागिनेय = भगिनी + य
- (2) वार्धक्य = वर्धक + य
- (3) ऐश्वर्य = ईश्वर + य
- (4) वैशिष्ट्य = विशिष्ट + य

**37.** उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन-सा विकल्प **असंगत** है ?

- (1) परि - पर्यक, पारिभाषिक, पर्युषण
- (2) अति - अत्युक्ति, अतीत, अत्यावश्यक
- (3) अन - अनसूया, अनधिकार, अनशन
- (4) प्रति - प्रत्यर्पण, प्रतीक्षा, प्रतीक

**38.** शब्द-प्रकृति की दृष्टि से **असंगत** युग्म चुनिए :

- (1) गोस्वामी - तत्सम शब्द
- (2) मुकद्दमा - देशज शब्द
- (3) पंख - तद्भव शब्द
- (4) तहसीलदार - संकर शब्द

**39.** समास-विग्रह की दृष्टि से कौन-सा विकल्प *असंगत* है ?

- (1) शुभंकर — शुभ को करने वाला
- (2) रसमलाई — रस में डूबी हुई मलाई
- (3) नवयुवक — नौ युवकों का समूह
- (4) शाखामृग — शाखाओं पर रहने/दौड़ने वाला मृग

**40.** निम्न में से *असंगत* विकल्प पहचानिए :

- (1) सातत्य — अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा
- (2) निजता — सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा
- (3) रोगिणी — भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण
- (4) शक्तिशाली — विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा

**41.** अर्थ की दृष्टि से कौन-सा मुहावरा संगत *नहीं* है ?

- (1) ख़याली पुलाव पकाना — व्यर्थ की बातें करना
- (2) अपना-सा मुँह लेकर रह जाना — असफल होने पर लज्जित होना
- (3) अँधेरे घर का उजाला — एकमात्र सहारा
- (4) ऊँट का सूई की नोक से निकलना — शक्तिशाली का कमजोर होना

**42.** 'सचिन क्रिकेट खेलता है।' उक्त वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए :

- (1) सचिन क्रिकेट खेलेगा।
- (2) सचिन क्रिकेट नहीं खेलता है।
- (3) सचिन से क्रिकेट खेला जाता था।
- (4) सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है।

**43.** निम्न में से किस विकल्प की सभी क्रियाएँ 'अकर्मक' हैं ?

- (1) चलना, मुस्कराना, खिलना
- (2) दौड़ना, रूठना, लिखना
- (3) हँसना, खाना, सोना
- (4) रोना, उठना, काटना

**44.** वाक्य के संदर्भ में कौन-सा विकल्प सुमेलित *नहीं* है ?

- (1) दुष्ट ! तुझे धिक्कार है।  
— विस्मयादिबोधक वाक्य
- (2) मैंने माँ का कहना नहीं माना।  
— निषेधबोधक वाक्य
- (3) हो सकता है वह आज शाम को आए।  
— इच्छाबोधक वाक्य
- (4) समय पर भोजन करोगे तो स्वस्थ रहोगे।  
— संकेतार्थक वाक्य

**45.** 'दादुर, भेक, शालुर' शब्द किसके पर्यायवाची हैं ?

- (1) हाथी
- (2) बन्दर
- (3) मेंढक
- (4) सिंह

## अंग्रेजी (ENGLISH)

**Direction :** Answer the following questions by selecting the **most appropriate** option.

- 46.** Choose the **correct** option :  
Transformation from Simple sentence to Complex sentence :  
A lost moment is lost forever.  
(1) A moment which is lost is lost forever.  
(2) A lost moment is forever lost.  
(3) Forever a lost moment is lost.  
(4) No moment is lost forever.
- 47.** Choose the **correct** option :  
Transformation of sentences : Simple to Compound  
He must work hard to make up for the lost time.  
(1) He must work hard, cover the lost time.  
(2) Making up for the lost time he must work hard.  
(3) He must work hard and make up for the lost time.  
(4) Working hard will make up for the lost time.
- 48.** Select the **correct** conjunctions for the blanks :  
We will come ..... it rains ..... not.  
(1) if, and                      (2) even, but  
(3) whether, or                (4) either, and
- 49.** Choose one word substitution for the following :  
A word spelt and pronounced similar but differing in meaning.  
(1) Antonym                      (2) Homonym  
(3) Synonym                      (4) Pseudonym

- 50.** Change the following sentences into Reported Speech by choosing the **correct** option.  
"If you want to smoke you'll have to go upstairs." said the landlord.  
(1) The landlord told him that if he wants to smoke he'll have to go upstairs.  
(2) The landlord told him that if he wanted to smoke he would have to go upstairs.  
(3) The landlord said that if he would want to smoke he would go upstairs.  
(4) The landlord says if you wanted to smoke you would have to go upstairs.
- 51.** Change the following sentences into Reported Speech by choosing the **correct** option :  
"We're waiting for the school bus," said the children, "It's late again."  
(1) The children told they're waiting for the school bus and it is late.  
(2) The children said they were waiting for the school bus and it is late.  
(3) The children complained that they were waiting for the school bus and it was late again.  
(4) The children complained that they were waiting for the school bus and it is late.

[ A ]

[ 12 ]

- 52.** Change the voice from Active to Passive. Choose the *right* option :  
We shall discuss the question tomorrow in the meeting.
- (1) The question will be discussed tomorrow in the meeting.
  - (2) We will be discussing the question tomorrow in the meeting.
  - (3) We shall be discussing tomorrow the question in the meeting.
  - (4) The question shall discuss tomorrow in the meeting.
- 53.** Choose the option which has *error* in it :
- (A) You should  
(B) tell to me  
(C) exactly what  
(D) happened there
- (1) A                      (2) B  
(3) C                      (4) D
- 54.** Select the *correct* preposition to fill in the blank :  
They live ..... the same roof.
- (1) in
  - (2) before
  - (3) after
  - (4) under
- 55.** Select the *correct* meaning of the underlined phrasal verbs :  
I cannot make out the meaning of this verse.
- (1) discovery
  - (2) understand
  - (3) reading
  - (4) start

- 56.** Choose the *correct* form of tense given in the option :  
She (play) the sitar since 6 o'clock this morning. He just (stop).
- (1) playing, stops
  - (2) was played, stopping
  - (3) has been playing, has just stopped
  - (4) have been playing, stopped
- 57.** Choose the *correct* meaning of the underlined idiom :  
He is friendly to the minister, he jumped the queue and got promotion.
- (1) replace something
  - (2) hopping
  - (3) blame somebody
  - (4) get something out of turn
- 58.** Select the *correct* preposition to fill in the blank :  
He broke the jug ..... a hundred pieces.
- (1) in                      (2) into  
(3) over                      (4) about
- 59.** Select the *correct* infinitive form of the given sentence :  
Seeing is believing.
- (1) To see is to believe.
  - (2) Seen is to believe.
  - (3) To see is believing.
  - (4) Seeing is to believe.
- 60.** Select the *correct* tense form :  
The car (belong) to my mother. She (use) it today to take Tom to the dentist.
- (1) belonged, is using
  - (2) belonged, using
  - (3) belong, used
  - (4) belongs, is using

## भाग - III (PART - III)

## सामान्य अध्ययन (GENERAL STUDIES)

## मात्रात्मक योग्यता, तार्किक अभिक्षमता तथा सामान्य ज्ञान एवं अभिज्ञान (QUANTITATIVE APTITUDE, REASONING ABILITY AND G. K. &amp; AWARENESS)

**निर्देश :** निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए **सबसे उचित विकल्प चुनिए।**

**Direction :** Answer the following questions by selecting the **most appropriate** option.

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>61.</b> किसी निश्चित कूट में MONKEY को XDJMNL लिखा जाए, तो TIGER को कैसे लिखा जाएगा ?<br/>           (1) SDFHS (2) SHFDQ<br/>           (3) QDFHS (4) UJHFS</p>   | <p><b>61.</b> In a certain code MONKEY is written as XDJMNL. How is TIGER written in that code ?<br/>           (1) SDFHS (2) SHFDQ<br/>           (3) QDFHS (4) UJHFS</p>   |
| <p><b>62.</b> यदि किसी निश्चित पैटर्न में <math>9 * 3 = 36</math>, <math>10 * 6 = 64</math>, <math>9 * 1 = 25</math>, तो उसी पैटर्न पर <math>23 * 3</math> का मान क्या होगा ?<br/>           (1) 169 (2) 52<br/>           (3) 32 (4) 576</p>   | <p><b>62.</b> In a certain pattern, if <math>9 * 3 = 36</math>, <math>10 * 6 = 64</math>, <math>9 * 1 = 25</math>, then in same pattern what is the value of <math>23 * 3</math> ?<br/>           (1) 169 (2) 52<br/>           (3) 32 (4) 576</p>   |
| <p><b>63.</b> यदि 1988 में 15 अगस्त बुधवार को मनाया गया था, तो यह 1989 में किस दिन मनाया गया था ?<br/>           (1) सोमवार (2) मंगलवार<br/>           (3) गुरुवार (4) शुक्रवार</p>   | <p><b>63.</b> If the Independence Day in 1988 was celebrated on Wednesday. On what day was it celebrated in the year 1989 ?<br/>           (1) Monday (2) Tuesday<br/>           (3) Thursday (4) Friday</p>   |
| <p><b>64.</b> विजय उत्तर की ओर 10 किमी चलता है वहाँ से 6 किमी दक्षिण की ओर चलता है उसके पश्चात् 3 किमी पूर्व की ओर चलता है। अब वह अपने आरम्भिक बिन्दु से कितना किमी तथा किस दिशा में है ?<br/>           (1) 5 किमी पश्चिम (2) 5 किमी उत्तर-पूर्व<br/>           (3) 7 किमी पूर्व (4) 7 किमी पश्चिम</p> | <p><b>64.</b> Vijay walks 10 km towards North, from there, he walks 6 km towards South, then he walks 3 km towards East. How far and in which direction is he with reference to his starting point ?<br/>           (1) 5 km West (2) 5 km North-East<br/>           (3) 7 km East (4) 7 km West</p> |
| <p><b>65.</b> पाँच भिन्न-भिन्न घर A से E, एक पंक्ति में स्थित हैं। A, B के दायीं ओर है और E, C के बायीं ओर है तथा A के दायीं ओर है। B, D के दायीं ओर है। कौन-सा घर एकदम मध्य में है ?<br/>           (1) A (2) B<br/>           (3) D (4) E</p>   | <p><b>65.</b> There are five different houses A to E in a row. A is to the right of B and E is to the left of C and right of A. B is to the right of D. Which of the house is exactly in the middle ?<br/>           (1) A (2) B<br/>           (3) D (4) E</p>                                      |

66. लड़कियों की एक पंक्ति में शिल्पा का स्थान बायें से 8वाँ है और रीना का स्थान दायें से 17वाँ है यदि वे अपना स्थान अदल-बदल दें तो शिल्पा बायें से 14वें स्थान पर हो जाती है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियाँ हैं ?

- (1) 27 (2) 29  
(3) 32 (4) 30

67.  $0.34\overline{67} + 0.13\overline{33}$  समान होगा :

- (1) 0.48 (2)  $0.48\overline{01}$   
(3)  $0.4\overline{8}$  (4)  $0.4\overline{8}$

68. संख्या श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए :

- 127, 128, 136, 163, 227, .....  
(1) 352 (2) 350  
(3) 357 (4) 341

69. यदि A का अर्थ 'जोड़', B का अर्थ 'घटाव', C का अर्थ 'भाजित', D का अर्थ 'गुणन' हो, तो निम्नलिखित का सरल मान क्या होगा ?

$$18 A 12 C 6 D 2 B 5 =$$

- (1) 25 (2) 27  
(3) 15 (4) 17

70. नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में छूटे हुए अक्षरों को ज्ञात कीजिए :

$$a - cdaab - cc - daa - bbb - ccddd$$

- (1) bdbda (2) bddca  
(3) dbbca (4) bbdac

71. किसी वर्ग के अन्तःवृत्त और बहिर्वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात होगा :

- (1) 1 : 4 (2) 4 : 1  
(3) 1 : 2 (4) 2 : 1

72. 11, 11.11, 0.11, 0.011 का मंसंपं क्या होगा ?

- (1) 0.011 (2) 1.1  
(3) 0.11 (4) 0.111

66. In a row of girls, Shilpa is 8th from the left and Reena is 17th from the right, if they interchange their positions, Shilpa becomes 14th from the left. How many girls are there in a row ?

- (1) 27 (2) 29  
(3) 32 (4) 30

67.  $0.34\overline{67} + 0.13\overline{33}$  is equal to :

- (1) 0.48 (2)  $0.48\overline{01}$   
(3)  $0.4\overline{8}$  (4)  $0.4\overline{8}$

68. Find the next term of the number series :

$$127, 128, 136, 163, 227, \dots$$

- (1) 352 (2) 350  
(3) 357 (4) 341

69. If A means 'plus', B means 'minus', C means 'divide by', D means 'multiply'. Then what will be simplified value of

$$18 A 12 C 6 D 2 B 5 = ?$$

- (1) 25 (2) 27  
(3) 15 (4) 17

70. Find the missing letters in the given letter series :

$$a - cdaab - cc - daa - bbb - ccddd$$

- (1) bdbda (2) bddca  
(3) dbbca (4) bbdac

71. The ratio of the areas of the incircle and circumcircle of a square will be :

- (1) 1 : 4 (2) 4 : 1  
(3) 1 : 2 (4) 2 : 1

72. What is the HCF of 11, 11.11, 0.11, 0.011 ?

- (1) 0.011 (2) 1.1  
(3) 0.11 (4) 0.111

- 73.** निम्नलिखित प्रश्न में संख्याएँ किसी निश्चित पैटर्न पर पंक्तिवार अथवा स्तम्भवार लिखी हुई हैं। उस पैटर्न को पहचानिए और छूटी हुई संख्या (प्रश्नवाचक चिह्न) ज्ञात कीजिए :

6	11	25
8	6	16
12	5	?

- (1) 18 (2) 16  
(3) 12 (4) 10
- 74.** दो रेलगाड़ियाँ 132 मीटर एवं 108 मीटर लम्बी एक-दूसरे से विरुद्ध दिशा में आ रही हैं जिसमें से एक की चाल 32 किमी/घण्टा तथा दूसरी की 40 किमी/घण्टा है। कितने समय में वे एक-दूसरे को पार कर जायेंगी ?

- (1) 8 से० (2) 10 से०  
(3) 12 से० (4) 11 से०
- 75.** यदि 7 बढ़ई 7 कुर्सियों को 8 घण्टे में बना सकते हैं तो, 70 बढ़ई 70 कुर्सियों को बनाने में कितने घण्टे लगायेंगे ?

- (1) 8 घण्टे  
(2) 560 घण्टे  
(3) 56 घण्टे  
(4) 70 घण्टे
- 76.** किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है, तो बताइए किसी उपभोक्ता द्वारा अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि उसके खर्चे में कोई वृद्धि नहीं हो ?

- (1)  $16\frac{2}{3}\%$  (2)  $15\frac{2}{3}\%$   
(3)  $17\frac{2}{3}\%$  (4)  $16\frac{1}{3}\%$

- 73.** The numbers in the following question numbers are written according to certain pattern row-wise or column-wise. Identify the pattern and find the missing character accordingly :

6	11	25
8	6	16
12	5	?

- (1) 18 (2) 16  
(3) 12 (4) 10
- 74.** Two trains 132 meters and 108 meters long are running in opposite direction, one at the speed of 32 km/hr and another at the speed of 40 km/hr. In what time will they cross each other ?

- (1) 8 sec. (2) 10 sec.  
(3) 12 sec. (4) 11 sec.
- 75.** If 7 carpenters can make 7 chairs in 8 hours, how many hours will 70 carpenters take to make 70 chairs ?

- (1) 8 hours  
(2) 560 hours  
(3) 56 hours  
(4) 70 hours
- 76.** The price of any item is increased by 20%. Find the reduction in the consumption of the item by a consumer so that there is no increase on his expenditure :

- (1)  $16\frac{2}{3}\%$  (2)  $15\frac{2}{3}\%$   
(3)  $17\frac{2}{3}\%$  (4)  $16\frac{1}{3}\%$

[ A ]

[ 16 ]

**77.**  $\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}}}}}$  का मान क्या होगा ?

- (1) 0 (2) 2  
(3) 1 (4)  $2^{31/32}$

**78.** ₹ 10,000 चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 5 वर्ष में दुगुने हो जाते हैं, तो 20 वर्ष पश्चात् उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह धन कितना हो जाएगा ?

- (1) ₹ 40,000 (2) ₹ 60,000  
(3) ₹ 80,000 (4) ₹ 1,60,000

**79.** A ने B को घड़ी 10% लाभ से बेच दी और B ने इसे C को 10% हानि से बेच दी। यदि C ने घड़ी का मूल्य ₹ 990 चुकाया हो, तो बताइए A ने उस घड़ी को कितने में खरीदा था ?

- (1) ₹ 900 (2) ₹ 1,000  
(3) ₹ 1,200 (4) ₹ 950

**80.** 2 : 5 अनुपात वाली प्रत्येक संख्या में कौन-सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्याओं का अनुपात 5 : 6 हो जाए ?

- (1) 12 (2) 11  
(3) 13 (4) 14

**81.** 'हरिप्रभा' मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है :

- (1) सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा  
(2) हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा  
(3) हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा  
(4) हरियाणा हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा

**82.** निम्नलिखित में से कौन 2021 में 'पद्म भूषण' प्राप्तकर्ता हैं ?

- (1) जय भगवान गोयल  
(2) वीरेन्द्र सिंह  
(3) तरलोचन सिंह  
(4) मुकेश सिंह

**77.** What is the value of  $\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}}}}}$  ?

- (1) 0 (2) 2  
(3) 1 (4)  $2^{31/32}$

**78.** A sum of ₹ 10,000 deposited at compound interest becomes double after 5 years. After 20 years the amount will be :

- (1) ₹ 40,000 (2) ₹ 60,000  
(3) ₹ 80,000 (4) ₹ 1,60,000

**79.** A sold a watch to B at a gain of 10% and B sold it to C at a loss of 10%. If C paid ₹ 990 for it, then how much amount paid by A ?

- (1) ₹ 900 (2) ₹ 1,000  
(3) ₹ 1,200 (4) ₹ 950

**80.** Which number must be added to each term of the ratio 2 : 5, so that it may equal to 5 : 6 ?

- (1) 12 (2) 11  
(3) 13 (4) 14

**81.** Monthly magazine 'Hariprabha' is published by :

- (1) Information and Public Relations Department  
(2) Haryana Sahitya Academy  
(3) Haryana Sanskrit Academy  
(4) Haryana Hindi Granth Academy

**82.** Who among the following is the recipient of 'Padma Bhushan' in 2021 ?

- (1) Jai Bhagwan Goyal  
(2) Virendra Singh  
(3) Tarlochan Singh  
(4) Mukesh Singh



83. ग्रन्थ/ग्रन्थों को चिन्हित कीजिए, जिसमें/जिनमें थानेसर का उल्लेख मिलता है :

- हर्षचरित
- युवान चांग का यात्रा वृत्तान्त
- कादम्बरी
- कर्पूर मंजरी

**सही** कूट का चयन कीजिए :

- केवल (i)
- (i) और (ii)
- (i), (ii) और (iii)
- (i), (ii), (iii) और (iv)

84. निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल **असंगत** है ?

**नदी**                      **उद्गम स्थल**

- सरस्वती      — डांगूशई
- इन्दौरी      — मेवात की पहाड़ियाँ
- मारकण्डा      — शिवालिक की पहाड़ियाँ
- टांगड़ी      — मोरनी की पहाड़ियाँ

85. निम्नलिखित में से किसने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य **नहीं** किया ?

- जस्टिस मुकुंद मुद्गल
- जस्टिस ए० के० सीकरी
- जस्टिस एम० एस० जैन
- जस्टिस संजय किशन कौल

86. 'प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम' लक्षित है :

- हरियाणा राज्य में पुराने पेड़ों को संरक्षित करने हेतु
- गैर-सरकारी चिकित्सकों को उनकी वृद्धावस्था में वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु
- गैर-सरकारी पैरामेडिकल कर्मियों को उनकी वृद्धावस्था में आर्थिक राहत प्रदान करने हेतु
- शहरी घरों में तुलसी एवं गिलोय के रोपण को प्रोत्साहित करने हेतु

83. Identify the text/texts, in which the reference of Thanesar is found :

- Harshcharit
- Travelogue of Yuvan Chang
- Kadambari
- Karpur Manjari

Choose the **correct** code :

- Only (i)
- (i) and (ii)
- (i), (ii) and (iii)
- (i), (ii), (iii) and (iv)

84. Origin of the which of the following rivers is **not** correctly matched ?

**River**                      **Origin Site**

- Saraswati      — Dangushai
- Indori      — Mewat hills
- Markanda      — Sivalik hills
- Tangdi      — Morni hills

85. Who among the following did **not** serve as the Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court ?

- Justice Mukund Mudgal
- Justice A. K. Sikri
- Justice M. S. Jain
- Justice Sanjay Kishan Kaul

86. 'Pran Vayu Devata Pension Scheme' is aimed to :

- Conserve older trees in Haryana State
- Provide financial assistance to the non-government doctors in their old age
- Provide economic relief to the non-government paramedical staff in their old age
- Encourage plantation of Tulsi and Giloya in urban households

[ A ]

[ 18 ]

**87.** निम्नलिखित हरियाणा के राज्यपालों में से किसका निधन पद पर रहते हुए हुआ ?

- (1) बी० एन० चक्रवर्ती
- (2) रणजीत सिंह नरूला
- (3) जे० एल० हाथी
- (4) सरदार एच० एस० बरार

**88.** दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत हरियाणा में प्रस्तावित निवेश क्षेत्र/औद्योगिक क्षेत्र में से अधोलिखित में से कौन-सा **गलत** है ?

- (1) फरीदाबाद – पलवल औद्योगिक क्षेत्र
- (2) रेवाड़ी – हिसार निवेश क्षेत्र
- (3) कुण्डली – सोनीपत निवेश क्षेत्र
- (4) मानेसर – बावल निवेश क्षेत्र

**89.** हरियाणा लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन ..... को प्रस्तुत करता है।

- (1) राज्यपाल
- (2) राष्ट्रपति
- (3) संसद
- (4) राज्य विधान सभा

**90.** हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा टोक्यो पैरालंपिक 2021 में जीते गए कुल पदक हैं :

- |        |        |
|--------|--------|
| (1) 04 | (2) 06 |
| (3) 08 | (4) 19 |

**87.** Who among the following Governors of Haryana died while in the office ?

- (1) B. N. Chakraborty
- (2) Ranjit Singh Narula
- (3) J. L. Hathi
- (4) Sardar H. S. Brar

**88.** Which of the following is **not** true about the proposed investment region/ industrial area under Delhi-Mumbai industrial corridor in Haryana ?

- (1) Faridabad – Palwal Industrial area
- (2) Rewari – Hisar investment region
- (3) Kundli – Sonipat investment region
- (4) Manesar – Bawal investment region

**89.** The Haryana Public Service Commission presents its annual report of the work done by the commission to the :

- (1) Governor
- (2) President
- (3) Parliament
- (4) State Legislative Assembly

**90.** The total number of medals won by the athletes of Haryana in the Tokyo Paralympics 2021 are :

- |        |        |
|--------|--------|
| (1) 04 | (2) 06 |
| (3) 08 | (4) 19 |

## भाग - IV (PART - IV)

## कम्प्यूटर साइंस (COMPUTER SCIENCE)

**निर्देश :** निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए।

**Direction :** Answer the following questions by selecting the most appropriate option.

**91.** वेबपेज का कोड ..... का प्रयोग करके लिखा जाता है।

- (1) हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज
- (2) 5वीं पीढ़ी की भाषा
- (3) विनज़िप
- (4) पर्ल

**92.**  $(539)_{10}$  का हेक्साडेसिमल में निरूपण क्या है ?

- (1) ABE
- (2) CDB
- (3) DES
- (4) 21B

**93.** एम० एस० वर्ड में CTRL + ALT + 1 के लिए प्रयोग किया जाता है :

- (1) डॉक्यूमेंट शेयरिंग के लिए
- (2) हेडिंग 1 स्टाइल के लिए
- (3) कंटेंट बोल्ड करने के लिए
- (4) हेडिंग बोल्ड करने के लिए

**94.** MS-Excel में countif फंक्शन का प्रयोग वास्तव में किसके लिए किया जाता है ?

- (1) एक रेंज में सेल की गणना करने के लिए जो दी हुई शर्त को पूरा करती है
- (2) एक रेंज में सेल की गणना करने के लिए जो खाली है
- (3) एक रेंज में सेल की गणना करने के लिए
- (4) एक रेंज में पंक्तियों की गणना करने के लिए

**95.** कम्प्यूटर का वह भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग और तुलना करता है :

- (1) ए एल यू
- (2) मेमोरी
- (3) सी पी यू
- (4) नियंत्रण

**91.** Code of webpage is written by using .....

- (1) Hyper text markup language
- (2) 5th generation language
- (3) Winzip
- (4) Perl

**92.** What is representation of  $(539)_{10}$  in hexadecimal ?

- (1) ABE
- (2) CDB
- (3) DES
- (4) 21B

**93.** In M. S. Word CTRL + ALT + 1 is used for :

- (1) Sharing the document
- (2) Heading 1 style
- (3) Bold the Content
- (4) Bold the Heading

**94.** Countif function in MS-Excel is exactly used to :

- (1) count cells in a range that meet a given condition
- (2) count the number of cells in a range that are blank
- (3) count number of cells in a range
- (4) count number of rows in a range

**95.** Part of computer which does addition, subtraction, multiplication, division and comparison is :

- (1) ALU
- (2) Memory
- (3) CPU
- (4) Control

[ A ]

[ 20 ]

96. एम एस एक्सेल में चार्ट दर्ज करने के लिए कौन-सा विकल्प **सही** है ?  
(1) फॉर्मूलास >> चार्ट्स  
(2) डाटा >> चार्ट्स  
(3) इनसर्ट मेनू >> चार्ट्स  
(4) व्यू >> चार्ट्स
97. डेसीमल 473 के लिए बीसीडी संख्या क्या है ?  
(1) 111011010  
(2) 110001110011  
(3) 010001110011  
(4) 10011110011
98. एक फंक्शन जिसमें कोई आंशिक कार्यात्मक निर्भरता **नहीं** है ..... के रूप में है।  
(1) 4NF  
(2) 2NF  
(3) 3NF  
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं
99. निम्नलिखित में से कौन एक वैध एग्रीगेट फंक्शन **नहीं** है ?  
(1) काउंट (2) कंप्यूट  
(3) सम (4) मैक्स
100. कम्प्यूटर में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा इनपुट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है ?  
(1) कुंजीपटल (कीबोर्ड)  
(2) स्कैनर  
(3) प्रिंटर  
(4) प्लॉटर
101. एक क्यू ..... का अनुसरण करती है।  
(1) फीफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) सिद्धान्त  
(2) लीफो (लास्ट इन फर्स्ट आउट) सिद्धान्त  
(3) आदेशित ऐरे  
(4) रैखिक ट्री

96. Which option is **correct** to enter the charts in MS-Excel ?  
(1) Formulas >> Charts  
(2) Data >> Charts  
(3) Insert menu >> Charts  
(4) View >> Charts
97. The BCD number for decimal 473 is :  
(1) 111011010  
(2) 110001110011  
(3) 010001110011  
(4) 10011110011
98. A function that has **no** partial functional dependencies is in ..... form.  
(1) 4NF  
(2) 2NF  
(3) 3NF  
(4) None of the above
99. Which of the following is **not** a valid aggregate function ?  
(1) COUNT (2) COMPUTE  
(3) SUM (4) MAX
100. What is used to input text and numerical data in a computer ?  
(1) Keyboard  
(2) Scanner  
(3) Printer  
(4) Plotter
101. A queue follows .....  
(1) FIFO (First In First Out) principle  
(2) LIFO (Last In First Out) principle  
(3) Ordered array  
(4) Linear tree

**102.** SQL व्यू को निम्न रूप में भी जाना जाता है :

- (1) सिंपल टेबल्स
- (2) वर्चुअल टेबल्स
- (3) कॉम्प्लेक्स टेबल्स
- (4) एक्चुअल टेबल्स

**103.** स्टैक में एलिमेंट डालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है ?

- (1) क्रिएट
- (2) पुश
- (3) मूल्यांकन
- (4) पॉप

**104.** यदि तत्वों 'A', 'B', 'C' तथा 'D' को एक कतार (क्यू) में रखा जाता है और उन्हें एक-एक कर हटाया जाता है, तो इन तत्वों को किस क्रम में हटाया जायेगा ?

- (1) ABCD
- (2) DCBA
- (3) DCAB
- (4) ABDC

**105.** यदि एक एट्रिब्यूट दूसरे का निर्धारक है, जो बदले में तीसरे का निर्धारक है, तो यह संबंध क्या *नहीं* हो सकता ?

- (1) अच्छी तरह से संरचित
- (2) 1NF
- (3) 2NF
- (4) 3NF

**106.** आप चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए ..... और एक दस्तावेज में पेस्ट करने के लिए ..... का उपयोग कर सकते हैं।

- (1) कंट्रोल + सी, कंट्रोल + वी
- (2) कंट्रोल + सी, कंट्रोल + पी
- (3) कंट्रोल + एस, कंट्रोल + एस
- (4) शिफ्ट + सी, ऑल्ट + पी

**107.** कम्प्यूटर की बुनियादी संरचना किसके द्वारा विकसित की गई है ?

- (1) जॉन वॉन न्यूमैन
- (2) ब्लेज़ पास्कल
- (3) गार्डन मूर
- (4) चार्ल्स बैबेज

**102.** SQL Views are also known as :

- (1) Simple Tables
- (2) Virtual Tables
- (3) Complex Tables
- (4) Actual Tables

**103.** Process of inserting an element in stack is called :

- (1) Create
- (2) Push
- (3) Evaluation
- (4) Pop

**104.** If the elements 'A', 'B', 'C' and 'D' are placed in a queue and are deleted one at a time, in what order will these elements be removed ?

- (1) ABCD
- (2) DCBA
- (3) DCAB
- (4) ABDC

**105.** If one attribute is determinant of second, which in turn is determinant of third, then the relation *cannot* be :

- (1) Well-structured
- (2) 1NF
- (3) 2NF
- (4) 3NF

**106.** You can use ..... to copy selected text and ..... to paste it into a document.

- (1) CTRL + C, CTRL + V
- (2) CTRL + C, CTRL + P
- (3) CTRL + S, CTRL + S
- (4) SHIFT + C, ALT + P

**107.** The basic architecture of computers was developed by :

- (1) Jon Von Neuman
- (2) Blaise Pascal
- (3) Garden Moore
- (4) Charles Babbage

[ A ]

[ 22 ]

**108.** C फाइल हैंडलिंग में scanf("%d",&val); के तुल्य है :

- (1) fscanf(stdin, "%d",&val);
- (2) fprintf(stdout, "value=%d\n", val)
- (3) scanf(value)
- (4) scanf()

**109.** वेब पर जानकारी का पता लगाने में उपयोगकर्ताओं की सहायता करने वाले विशिष्ट प्रोग्राम ..... कहलाते हैं।

- (1) लोकेटर इंजन
- (2) वेब ब्राउज़र
- (3) रिसोर्स लोकेटर
- (4) सर्च इंजन

**110.** ई-मेल सुविधा प्रदान करने वाला प्रोटोकॉल है :

- (1) एफ टी पी
- (2) एस एम टी पी
- (3) टेलनेट
- (4) इनमें से कोई नहीं

**111.** कौन-सा पॉवरप्वॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड को थंबनेल के रूप में प्रदर्शित करता है और स्लाइड्स को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए उपयोगी है ?

- (1) स्लाइड सॉर्टर
- (2) स्लाइड शो
- (3) स्लाइड मास्टर
- (4) नोट्स पेज

**112.** ब्लॉक{} के भीतर घोषित एक चर का निम्नलिखित स्कोप होता है :

- (1) फ़ाइल स्कोप
- (2) लोकल स्कोप
- (3) क्लास स्कोप
- (4) ग्लोबल स्कोप

**113.** निम्नलिखित में से कौन डेटाबेस से जानकारी को क्वेरी करने और डेटाबेस में टपल्स को सम्मिलित करने, टपल्स को हटाने और डेटाबेस में टपल्स को संशोधित करने की क्षमता प्रदान करता है ?

- (1) डाटा मैनीपुलेशन लैंग्वेज
- (2) डाटा डेफिनिशन लैंग्वेज
- (3) क्वेरी
- (4) रिलेशनल स्कीमा

**108.** In C file handling equivalent to scanf("%d",&val); is :

- (1) fscanf(stdin, "%d",&val);
- (2) fprintf(stdout, "value=%d\n", val)
- (3) scanf(value)
- (4) scanf()

**109.** Specialized programs that assist users in locating information on the Web are called .....

- (1) Locator engines
- (2) Web browsers
- (3) Resource locators
- (4) Search engines

**110.** The protocol which provides e-mail facility is :

- (1) FTP
- (2) SMTP
- (3) TELNET
- (4) None of these

**111.** Which PowerPoint view displays each slide of the presentation as a thumbnail and is useful for rearranging slides ?

- (1) Slide Sorter
- (2) Slide Show
- (3) Slide Master
- (4) Notes Page

**112.** A variable declared within the block {} has the following scope :

- (1) File Scope
- (2) Local Scope
- (3) Class Scope
- (4) Global Scope

**113.** Which of the following provides the ability to query information from the database and insert tuples into, delete tuples from, and modify tuples in the database ?

- (1) DML (Data Manipulation Language)
- (2) DDL (Data Definition Language)
- (3) Query
- (4) Relational Schema

**114.** निम्नलिखित में से कौन MS-Excel का एक वैध सेल एड्रेस है ?

- (1) A:20
- (2) B;15
- (3) D6
- (4) 10H

**115.** निम्नलिखित में से इंक्रीमेंटल टेस्टिंग का कौन-सा तरीका या अप्रोच सही *नहीं* है ?

- (1) बिग बैंग दृष्टिकोण (अप्रोच)
- (2) टॉप-डाउन दृष्टिकोण (अप्रोच)
- (3) कार्यात्मक इंक्रीमिनेशन
- (4) बॉटम-अप दृष्टिकोण (अप्रोच)

**116.** वाटरफॉल मॉडल में कौन-सा एक चरण जिसमें आवश्यकताओं को समझने के लिए ग्राहक के साथ एक मीटिंग शामिल होती है ?

- (1) रिक्वायरमेंट गैदरिंग
- (2) एस आर एस
- (3) इम्प्लीमेंटेशन
- (4) कस्टमर रिव्यू

**117.** हैविंग क्लॉज के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन *सत्य* है ?

- (1) वेयर क्लॉज के समान लेकिन यह समूहों के बजाय कॉलम के लिए उपयोग किया जाता है।
- (2) वेयर क्लॉज के समान लेकिन कॉलम के बजाय रो के लिए उपयोग किया जाता है।
- (3) वेयर क्लॉज के समान लेकिन यह रो के बजाय समूहों के लिए उपयोग किया जाता है।
- (4) बिल्कुल वेयर क्लॉज की तरह काम करता है।

**114.** Which among the following is a valid cell address in MS-Excel ?

- (1) A:20
- (2) B;15
- (3) D6
- (4) 10H

**115.** Which is *not* the right approach of incremental testing approach ?

- (1) Big bang approach
- (2) Top-down approach
- (3) Functional incrimination
- (4) Bottom-up approach

**116.** Which is the step in waterfall model that involves a meeting with the customer to understand the requirements ?

- (1) Requirement Gathering
- (2) SRS
- (3) Implementation
- (4) Customer review

**117.** Which of the following is *true* about the HAVING clause ?

- (1) Similar to the WHERE clause but is used for columns rather than groups.
- (2) Similar to WHERE clause but is used for rows rather than columns.
- (3) Similar to WHERE clause but is used for groups rather than rows.
- (4) Acts exactly like a WHERE clause.

[ A ]

[ 24 ]

**118.** आमतौर पर रिलेशन की संरचना बनाने, रिलेशन को हटाने जैसे कार्यों को करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है ?

- (1) डाटा मैनीपुलेशन लैंग्वेज
- (2) क्वेरी
- (3) रिलेशनल स्कीमा
- (4) डाटा डेफिनिशन लैंग्वेज

**119.** निम्नलिखित में से किस टेस्टिंग को व्हाइट-बॉक्स टेस्टिंग के रूप में भी जाना जाता है ?

- (1) त्रुटि अनुमान लगाने की तकनीक
- (2) डिजाइन-आधारित टेस्टिंग
- (3) ग्लास बॉक्स टेस्टिंग
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

**120.** कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है ?

- (1) एक कंस्ट्रक्टर जो उपयोगकर्ता अथवा यूजर को डेटा को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है।
- (2) एक कंस्ट्रक्टर जो किसी ऑब्जेक्ट को किसी अन्य ऑब्जेक्ट के मानों या वैल्यू के साथ प्रारंभ करता है।
- (3) एक कंस्ट्रक्टर यह जाँचने के लिए कि ऑब्जेक्ट्स बराबर हैं या नहीं।
- (4) एक कंस्ट्रक्टर जो किसी दिए ऑब्जेक्ट की अन्य प्रतियों को डिलीट करता है।

**121.** एक यू आर एल में शामिल है :

- (1) प्रोटोकॉल पहचानकर्ता
- (2) www
- (3) अद्वितीय पंजीकृत डोमेन नाम
- (4) इनमें से सभी

**118.** Which of the following is generally used for performing tasks like creating the structure of the relations, deleting relation ?

- (1) DML (Data Manipulation Language)
- (2) Query
- (3) Relational Schema
- (4) DDL (Data Definition Language)

**119.** Which of the following testing is also known as white-box testing ?

- (1) Error guessing technique
- (2) Design based testing
- (3) Glass box testing
- (4) None of the above

**120.** What is a copy constructor ?

- (1) A constructor that allows a user to move data from one object to another.
- (2) A constructor to initialize an object with the values of another object.
- (3) A constructor to check whether objects are equal or not.
- (4) A constructor to delete other copies of a given object.

**121.** A URL contains :

- (1) Protocol identifier
- (2) www
- (3) Unique registered domain name
- (4) All of these



**122.** निम्नलिखित में से कौन-सा एक्सेल का व्हाट-इफ फंक्शन का कार्य *नहीं* है ?

- (1) गोल सीक
- (2) सॉल्वर ऐड-इन
- (3) सिनेरियोज
- (4) ऑटो आउटलाइन

**123.** एक ऐरे के निम्न डिक्लेरेशन में :

float height[50];

- (1) height[0] ऐरे के पहले तत्व को संदर्भित करता है।
- (2) height ऐरे के पहले तत्व को संदर्भित करता है।
- (3) height[0 + 1] ऐरे के पहले तत्व को संदर्भित करती है।
- (4) height[1] ऐरे के पहले तत्व को संदर्भित करता है।

**124.** फंक्शन 'cin' और 'cout' आवश्यक रूपांतरणों को हल करते हैं :

- (1) संकलन के समय
- (2) निष्पादन के समय
- (3) लिंकिंग के समय
- (4) इनमें से कोई नहीं

**125.** ..... सूचना को द्विआधारी रूप से मानव स्वीकार्य रूप में बदलता है।

- (1) आउटपुट इंटरफेस
- (2) प्रोसेसर
- (3) इनपुट इंटरफेस
- (4) इनमें से कोई नहीं

**126.** ..... पर क्लिक करने पर एक और वेबपेज/दस्तावेज खुलता है।

- (1) एंकर
- (2) हाइपरलिंक
- (3) संदर्भ
- (4) ई-मेल

**122.** Which of the following is *not* one of Excel's what-if function ?

- (1) Goal Seek
- (2) Solver Add-in
- (3) Scenarios
- (4) Auto Outline

**123.** In the given declaration of an array :

float height[50];

- (1) height[0] refers to first element of array.
- (2) height refers to first element of array.
- (3) height[0 + 1] refers to first element of array.
- (4) height[1] refers to first element of array.

**124.** The functions 'cin' and 'cout' resolve the necessary conversions at :

- (1) Compile time
- (2) Execution time
- (3) Linking time
- (4) None of these

**125.** ..... transform the information from binary form to human acceptable form.

- (1) Output interfaces
- (2) Processor
- (3) Input interfaces
- (4) None of these

**126.** On clicking on a ....., opens another document/webpage.

- (1) Anchor
- (2) Hyperlink
- (3) Reference
- (4) E-mail

[ A ]

[ 26 ]

**127.** C++ में बिट खिसकाने वाले ऑपरेटर << को और किस कार्य में प्रयोग किया जा सकता है ?

- (1) मान दर्शाने में
- (2) योग में
- (3) वृद्धि में
- (4) हास में

**128.** एक्सेल वर्कबुक ..... का एक संग्रह है।

- (1) चार्ट
- (2) वर्डबुक
- (3) वर्कशीट
- (4) पेज

**129.** C++ लैंग्वेज में निम्नलिखित में से कौन-सा स्कोप रिजॉल्यूशन ऑपरेटर है ?

- (1) .
- (2) \*
- (3) ::
- (4) ~

**130.** इनहेरिटेन्स C++ प्रोग्राम में निम्नलिखित की अनुमति देता है :

- (1) क्लास पुनः प्रयोज्य
- (2) कक्षाओं का एक पदानुक्रम बनाना
- (3) विस्तारशीलता
- (4) सभी विकल्प सही हैं

**131.** एक सामान्य सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रक्रिया मॉडल बनाने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों का सुव्यवस्थित मिलान करें :

- (a) मॉडलिंग
  - (b) प्लानिंग
  - (c) डिप्लॉयमेंट
  - (d) कंस्ट्रक्शन
  - (e) कम्युनिकेशन
- (1) a, b, c, d, e    (2) b, c, e, a, d  
(3) e, b, a, d, c    (4) a, e, d, b, c

**132.** निम्नलिखित में से कौन डी डी एल कमांड **नहीं** है ?

- (1) ट्रंकेट
- (2) आल्टर
- (3) क्रिएट
- (4) अपडेट

**127.** In C++, << operator used for shifting bits can also be used for :

- (1) Displaying values
- (2) Addition
- (3) Increment
- (4) Decrement

**128.** Excel workbook is a collection of :

- (1) Chart
- (2) Wordbook
- (3) Worksheet
- (4) Page

**129.** Which of the following is the scope resolution operator in C++ language ?

- (1) .
- (2) \*
- (3) ::
- (4) ~

**130.** Inheritance allows the following in C++ program :

- (1) Class Re-usability
- (2) Creating a hierarchy of classes
- (3) Extendibility
- (4) All options are correct

**131.** Arrange the following activities to form a general software engineering process model :

- (a) Modelling
  - (b) Planning
  - (c) Deployment
  - (d) Construction
  - (e) Communication
- (1) a, b, c, d, e    (2) b, c, e, a, d  
(3) e, b, a, d, c    (4) a, e, d, b, c

**132.** Which of the following is **not** a DDL command ?

- (1) TRUNCATE
- (2) ALTER
- (3) CREATE
- (4) UPDATE

**133.** पॉवरपवाइंट व्यू जो केवल टेक्स्ट-शीर्षक और बुलेट प्रदर्शित करता है, वह है :

- (1) रूपरेखा व्यू
- (2) नोट्स पेज व्यू
- (3) स्लाइड सॉर्टर
- (4) स्लाइड शो

**134.** जब आप MS-Access डेटाबेस फ़ाइल बनाते या खोलते हैं तो MS-Access फ़ाइल का जो कमाण्ड सेंटर दिखाई देता है, वह क्या कहलाता है ?

- (1) डेटाबेस विंडो
- (2) क्वेरी विंडो
- (3) डिज़ाइन व्यू विंडो
- (4) स्विचबोर्ड

**135.** एक स्टैक में, यदि कोई उपयोगकर्ता (यूजर) किसी खाली स्टैक से किसी एलिमेंट (तत्व) को हटाने का प्रयास करता है, तो उसे क्या कहा जाता है ?

- (1) अंडरफ्लो
- (2) खाली संग्रह
- (3) ओवरफ्लो
- (4) गार्बेज संग्रह

**136.** CPU का वह भाग जो कम्प्यूटर और अन्य घटकों की सभी कार्यक्षमता का समन्वय करता है :

- (1) मदरबोर्ड
- (2) ए एल यू
- (3) नियंत्रण इकाई
- (4) (1) और (3)

**137.** तीसरी पीढ़ी के कम्प्यूटर :

- (1) VLSI का उपयोग करने वाले पहले कम्प्यूटर थे
- (2) अंतर्निहित त्रुटि का पता लगाने वाले उपकरणों का उपयोग करने वाले पहले कम्प्यूटर थे
- (3) वैक्यूम ट्यूबों के बजाय ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था
- (4) एकीकृत सर्किट का उपयोग करने वाले पहले कम्प्यूटर थे

**133.** The PowerPoint view that displays only text-title and bullets is :

- (1) Outline view
- (2) Notes page view
- (3) Slide sorter
- (4) Slide show

**134.** The command center of MS-Access file that appears when you create or open the MS-Access database file, is called :

- (1) Database Window
- (2) Query Window
- (3) Design View Window
- (4) Switchboard

**135.** In a stack, if a user tries to remove an element from an empty stack, it is called :

- (1) Underflow
- (2) Empty collection
- (3) Overflow
- (4) Garbage collection

**136.** The part of the CPU that coordinates all the functionality of the computer and other components :

- (1) Motherboard
- (2) ALU
- (3) Control Unit
- (4) (1) and (3)

**137.** The third generation computers :

- (1) Were the first computers to use VLSI
- (2) Were the first computers to use built-in error detecting devices
- (3) Used transistors instead of vacuum tubes
- (4) Were the first computers to use integrated circuits

[ A ]

[ 28 ]

**138.** एक गेट में कितने आउटपुट सिग्नल हो सकते हैं ?

- (1) शून्य
- (2) दो
- (3) दो से अधिक
- (4) एक

**139.** एक चर के पूरक का पूरक हमेशा ..... होता है।

- (1) 0
- (2) 1
- (3) चर के बराबर
- (4) चर के विपरीत

**140.** एम० एस० पॉवरप्वाइंट में शिफ्ट + F5 शॉर्ट कट कुँजी प्रयुक्त होती है :

- (1) वर्तमान स्लाइड से स्लाइड प्रदर्शन चालू करने के लिए
- (2) प्रथम स्लाइड से स्लाइड प्रदर्शन चालू करने के लिए
- (3) चलते हुए स्लाइड प्रदर्शन को बंद करने के लिए
- (4) चलते हुए स्लाइड प्रदर्शन में प्रथम स्लाइड पर जाने के लिए

**141.** निम्नलिखित का उपयोग करके एक जेनेरिक फंक्शन बनाया जा सकता है :

- (1) इनहेरिटेंस
- (2) डाटा हाइडिंग
- (3) पॉलीमॉर्फिज्म
- (4) टेम्प्लेट

**142.** ..... का उपयोग बैंकिंग उद्योग द्वारा चेक पर वर्णों की पूर्व छपाई के लिए किया जाता है।

- (1) एम आई सी आर
- (2) ओ सी आर
- (3) बार कोड रीडर
- (4) इनमें से कोई नहीं

**138.** How many output signals can a gate have ?

- (1) Zero
- (2) Two
- (3) More than two
- (4) One

**139.** The complement of complement of a variable is always .....

- (1) 0
- (2) 1
- (3) Equal to variable
- (4) The inverse of the variable

**140.** In M. S. PowerPoint short-cut key shift + F5 is used to :

- (1) Start a slide show from the current slide
- (2) Start the slide show from the first slide
- (3) Close the slide show
- (4) Go back to first slide during running slide show

**141.** A generic function can be created using the following :

- (1) Inheritance
- (2) Data hiding
- (3) Polymorphism
- (4) Template

**142.** ..... is used by banking industry for pre printing of characters on the cheque.

- (1) MICR
- (2) OCR
- (3) Bar Code Reader
- (4) None of these

**143.** निम्नलिखित C++ कथनों पर विचार करें :

int x;

int& y = x;

कथन :  $y = 25; x = 2*x + 30;$  x और y के मान को अपडेट करता है :

(1)  $y = 25, x = 25$

(2)  $y = 25, x = 80$

(3)  $y = 25, x = 30$

(4)  $y = 80, x = 80$

**144.** MS-Office में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कमाण्ड और टूल्स तक त्वरित पहुँच के लिए किनका प्रयोग किया जा सकता है ?

(1) स्टेटस बार

(2) टूल बार

(3) मेनू बार

(4) टाइटल बार

**145.** C++ में रेफरेंस द्वारा ऑब्जेक्ट को पास करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाना चाहिए ?

(1) &

(2) @

(3) \$

(4) उपरोक्त में से कोई नहीं

**146.** कार्यात्मक निर्भरता (फंक्शनल डिपेंडेंसी) निम्नलिखित में से किसके बीच में एक संबंध है ?

(1) टेबल

(2) पंक्ति (रो)

(3) संबंध (रिलेशन)

(4) गुण (एट्रिब्यूट)

**143.** Consider the following C++ statements :

int x;

int& y = x;

The statement :  $y = 25; x = 2*x + 30;$  updates the value of x and y as :

(1)  $y = 25, x = 25$

(2)  $y = 25, x = 80$

(3)  $y = 25, x = 30$

(4)  $y = 80, x = 80$

**144.** In MS-Office which can be used for quick access to commonly used commands and tools ?

(1) Status bar

(2) Tool bar

(3) Menu bar

(4) Title bar

**145.** Which symbol should be used to pass the object by reference in C++ ?

(1) &

(2) @

(3) \$

(4) None of the above

**146.** A functional dependency is a relationship between or among :

(1) Tables

(2) Rows

(3) Relations

(4) Attributes

[ A ]

[ 30 ]

**147.** तत्त्वों की एक रैखिक सूची जिसमें एक छोर (सामने) से एलिमेंट को हटाया या विलोपन किया जा सकता है और दूसरे छोर (पीछे) पर ही निवेशन हो सकता है, किस रूप में जाना जाता है :

- (1) क्यू (2) स्टैक  
(3) ट्री (4) लिंकड सूची

**148.** मल्टिपल इनहेरिटेंस से क्या तात्पर्य है ?

- (1) व्युत्पन्न क्लास से आधार क्लास प्राप्त करना  
(2) आधार क्लास से व्युत्पन्न क्लास प्राप्त करना  
(3) एक से अधिक बेस क्लास से व्युत्पन्न क्लास प्राप्त करना  
(4) उल्लिखित में से कोई नहीं

**149.** वह कौन-सा चरण है जिसमें सभी घटकों को एकीकृत किया जाता है और सुनिश्चित किया जाता है कि वे ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए त्रुटि मुक्त है ?

- (1) कोडिंग  
(2) टेस्टिंग  
(3) डिज़ाइन  
(4) इम्प्लीमेंटेशन

**150.** MS-Word में गटर मार्जिन क्या है ?

- (1) मार्जिन जो प्रिंट करते समय बाएं मार्जिन में जोड़ा जाता है  
(2) मार्जिन जो प्रिंट करते समय दाहिने मार्जिन में जोड़ा जाता है  
(3) मार्जिन जो प्रिंट करते समय पृष्ठ के जिल्द की तरफ जोड़ा जाता है  
(4) मार्जिन जो प्रिंट करते समय पृष्ठ के बाहर जोड़ा जाता है

**147.** A linear list of elements in which deletion can be done from one end (front) and insertion can take place only at the other end (rear), is known as :

- (1) Queue (2) Stack  
(3) Tree (4) Linked list

**148.** What is meant by multiple inheritance ?

- (1) Deriving a base class from derived class  
(2) Deriving a derived class from base class  
(3) Deriving a derived class from more than one base class  
(4) None of the mentioned

**149.** In which stage individual components are integrated and ensured that they are error free to meet customer requirements ?

- (1) Coding  
(2) Testing  
(3) Design  
(4) Implementation

**150.** In MS-Word what is gutter margin ?

- (1) Margin that is added to the left margin when printing  
(2) Margin that is added to the right margin when printing  
(3) Margin that is added to the binding side of page when printing  
(4) Margin that is added to the outside of the page when printing

**रफ कार्य के लिए (FOR ROUGH WORK)**

PGTPrime.com

6. प्रश्नों के उत्तर, उत्तर पत्रक में निर्धारित खानों को काले बॉल प्वाइंट पेन से पूर्णतया भरना है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है :

① ● ③ ④

आप द्वारा दिया गया उत्तर गलत माना जाएगा, यदि उत्तर वाले खाने को निम्न प्रकार से भरते हैं :

✓ ⊗ ● ◐

यदि एक से ज्यादा खानों को भर देते हैं तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा।

6. Answers to questions in answer sheet are to be given by darkening complete circle using Black ball point pen as shown below :

① ● ③ ④

The answer will be treated wrong, if it is marked, as given below :

✓ ⊗ ● ◐

If you fill more than one circle it will be treated as a wrong answer.

7. रफ कार्य प्रश्न-पुस्तिका में इस प्रयोजन के लिए दी गई खाली जगह पर ही करें। (Rough work should be done only in the space provided in the Question Booklet for the same.)
8. सभी उत्तर केवल OMR उत्तर पत्रक पर ही अंकित करें। अपने उत्तर ध्यानपूर्वक अंकित करें। उत्तर बदलने हेतु श्वेत रंजक (सफेद फ्ल्यूइड) का प्रयोग निषिद्ध है। (The answers are to be recorded on the OMR Answer Sheet only. Mark your responses carefully. Whitener (white fluid) is not allowed for changing answers.)
9. प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए चार विकल्पों में से उचित विकल्प के लिए OMR उत्तर पत्रक पर केवल एक वृत्त को ही पूरी तरह काले बॉल प्वाइंट पेन से भरें। एक बार उत्तर अंकित करने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता है। (Out of the four alternatives for each question, only one circle for the most appropriate answer is to be darkened completely with Black Ball Point Pen on the OMR Answer Sheet. The answer once marked is not allowed to be changed.)
10. अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्रक को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएँ। अभ्यर्थी अपना अनुक्रमांक उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र न लिखें। (The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray mark on the Answer Sheet. Do not write your Roll No. anywhere else except in the specified space in the Answer Sheet.)
11. प्रश्न-पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक का ध्यानपूर्वक प्रयोग करें, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में (प्रश्न-पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक के क्रमांक में भिन्नता की स्थिति को छोड़कर) दूसरी प्रश्न पुस्तिका सैट उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। (Handle the Question Booklet and Answer Sheet with care, as under no circumstances (except for discrepancy in Question Booklet and Answer Sheet Serial No.), another set of Question Booklet will not be provided.)
12. प्रश्न-पुस्तिका/उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक को अभ्यर्थी सही तरीके से हस्ताक्षर चार्ट में लिखें। (The candidates should write the correct Number as given in the Question Booklet/Answer Sheet in the Signature Chart.)
13. अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल/कक्ष में प्रवेश पत्र और पहचान पत्र के अतिरिक्त किसी प्रकार की पाठ्य-सामग्री, मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियाँ, पेजर, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है। (Candidates are not allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, pager, mobile phone, electronic device or any other material except the Admit Card and Identity Card inside the examination hall/room.)
14. पर्यवेक्षक द्वारा पूछे जाने पर प्रत्येक अभ्यर्थी अपना प्रवेश कार्ड (रोल नं०) और पहचान पत्र दिखाएँ। (Each candidate must show on demand his/her Admit Card (Roll No.) and identity card to the Invigilator.)
15. केन्द्र अधीक्षक या पर्यवेक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई अभ्यर्थी अपना स्थान न छोड़ें। (No candidate, without special permission of the Superintendent or Invigilator, should leave his/her seat.)
16. कार्यरत पर्यवेक्षक को अपना उत्तर पत्रक दिए बिना एवं हस्ताक्षर चार्ट पर दोबारा हस्ताक्षर किए बिना अभ्यर्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़ेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी ने दूसरी बार हस्ताक्षर चार्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए तो यह माना जाएगा कि उसने उत्तर पत्रक नहीं लौटाया है और यह अनुचित साधन का मामला माना जाएगा। OMR उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान पर सभी अभ्यर्थियों द्वारा बायें हाथ के अंगूठे का निशान लगाया जाना है। अंगूठे का निशान लगाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि स्याही सही मात्रा में ही लगाई जाए अर्थात् स्याही की मात्रा न तो बहुत अधिक हो व न ही बहुत कम। (The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and signing the Signature Chart twice. Cases where a candidate has not signed the Signature Chart second time will be deemed not to have handed over the Answer Sheet and dealt with as an unfair means case. All candidates have to affix left hand thumb impression on the OMR answer sheet at the place specified which should be properly inked i.e. they should not be either over inked or dried in nature.)
17. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचालित परिकलक का उपयोग वर्जित है। (Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.)
18. परीक्षा हॉल में आचरण के लिए, अभ्यर्थी विवरणिका में दी गई प्रक्रिया/दिशा-निर्देश व बोर्ड के सभी नियमों एवं विनियमों का विशेष ध्यान रखें। अनुचित साधनों के सभी मामलों का फैसला बोर्ड के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा। (The candidates are governed by Guidelines/Procedure given in the Information Bulletin, all Rules and Regulations of the Board with regard to their conduct in the Examination Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of the Board.)
19. किसी हालत में प्रश्न-पुस्तिका और उत्तर पत्रक का कोई भाग अलग न करें। (No part of the Question Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.)
20. परीक्षा सम्पन्न होने पर, अभ्यर्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्रक कक्ष-पर्यवेक्षक को अवश्य सौंप दें। अभ्यर्थी अपने साथ इस प्रश्न-पुस्तिका को ले जा सकते हैं। (On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator in the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Question Booklet with them.)



PGT : For Lecturer

Sub. Code No.: 321 COMPUTER SCIENCE

Final Answer Key

Part : I		Part : II		Part : III		Part : IV		Part : IV	
QN.	Ans.	QN.	Ans.	QN.	Ans.	QN.	Ans.	QN.	Ans.
001	(4)	031	(2)	061	(3)	091	(1)	121	(4)
002	(3)	032	(4)	062	(1)	092	(4)	122	(4)
003	(1)	033	(2)	063	(3)	093	(2)	123	(1)
004	(2)	034	(1)	064	(2)	094	(1)	124	(1)
005	(1)	035	(4)	065	(1)	095	(1)	125	(1)
006	(2)	036	(1)	066	(4)	096	(3)	126	(2)
007	(3)	037	(3)	067	(2)	097	(3)	127	(1)
008	(3)	038	(2)	068	(1)	098	(2)	128	(3)
009	(4)	039	(3)	069	(4)	099	(2)	129	(3)
010	(3)	040	(4)	070	(4)	100	(1)	130	(4)
011	(2)	041	(4)	071	(3)	101	(1)	131	(3)
012	(2 & 4)	042	(4)	072	(1)	102	(2)	132	(4)
013	(4)	043	(1)	073	(2)	103	(2)	133	(1)
014	(1)	044	(3)	074	(3)	104	(1)	134	(1)
015	(3)	045	(3)	075	(1)	105	(4)	135	(1)
016	(*)	046	(1)	076	(1)	106	(1)	136	(3)
017	(1)	047	(3)	077	(4)	107	(1)	137	(4)
018	(2)	048	(3)	078	(4)	108	(1)	138	(4)
019	(2)	049	(2)	079	(2)	109	(4)	139	(3)
020	(3)	050	(2)	080	(3)	110	(2)	140	(1)
021	(1)	051	(3)	081	(3)	111	(1)	141	(4)
022	(3)	052	(1)	082	(3)	112	(2)	142	(1)
023	(2)	053	(2)	083	(2)	113	(1)	143	(4)
024	(4)	054	(4)	084	(1)	114	(3)	144	(2)
025	(2)	055	(2)	085	(3)	115	(1)	145	(1)
026	(4)	056	(3)	086	(1)	116	(1)	146	(4)
027	(3)	057	(4)	087	(1)	117	(3)	147	(1)
028	(4)	058	(2)	088	(2)	118	(4)	148	(3)
029	(1)	059	(1)	089	(1)	119	(3)	149	(2)
030	(3)	060	(4)	090	(2)	120	(2)	150	(3)